



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 707 राँची, मंगलवार, 03 सितम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 अगस्त, 2019

विषय: ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-06 पर दर्ज "गद्दी" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।

संख्या14/जा०नि०-03-03/2019 का०- 6789-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची -2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14(अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति /वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक-6 पर दर्ज "गद्दी" के साथ "गद्दी", ग्वाला (मुस्लिम) के रूप में दर्ज किया जाय," के आलोक में सम्यक्

विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक-06 पर दर्ज "गद्दी" के साथ "ग्वाला (मुस्लिम)" को निम्नवत् सम्मिलित की जाय:-

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है:-

<u>क्रमांक</u>	<u>वर्तमान प्रविष्टि</u>	<u>संशोधित प्रविष्टि</u>
06	गद्दी	"गद्दी", ग्वाला (मुस्लिम)

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
